



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 364] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/ श्रावण 26, 1904  
No. 364] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/ SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

रेल मन्त्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दि. सं. ५ अगस्त 1982

का० आ० 596(अ)--भूमिगत रेल (सकर्म निर्माण) अधिनियम  
1978 की धारा 21(1) (ख) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

यह केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित सभी इमारतों का जो भूमिगत संरक्षण के ऊपर अथवा उसके किसी भी तल पर 20 मीटर के भीतर स्थित हो अस्थायी रूप से खाली कराने का निर्देश दिया जाय और एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निर्दिष्ट परिमरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और अश्विनों सहित जो इन परिमरों में रह रहे हों साथ ही यदि कोई बल संपत्ति अथवा पशु, जो उनकी अभिरक्षा नियंत्रण या कब्जे में हो ता उनके सहित उक्त इमारत को खाली कर दें।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान जिस केंद्रीय सरकार उपयुक्त समझे निशुल्क उपलब्ध कराने की अथवा एक ऐसी धन-राशि का जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान का प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इंजीनियर, सी एस-4 भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबंधक भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत

590GI/82

प्रतिनिधि है सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए -

- (क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता से अस्थायी तौर पर कोई निर्दिष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निशुल्क ग्रहण करने के लिए, अथवा
- (ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीदने के लिए भूमिगत रेलवे, कलकत्ता से निर्दिष्ट धनराशि या केंद्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो प्राप्त करने के लिए अपने आप को पेश करने के लिए।

अनुसूची

| इमारत परिमर सं०                 | प्रभावित व्यक्तियों का नाम  | निर्देशन  |
|---------------------------------|---|---|
| 24 99 बेल्गाछिया<br>राइ बलकत्ता | 1 प्रदीप साधुखाना<br>2 राम बिधारा<br>3 रामजी गोमाला<br>4 अमित कुमार साहा<br>(सिलार्ड की कुकान)<br>5 अनिता साहा राय<br>(झाड़ू बनाने का कमरा)<br>6 खाली कमरा<br>7 लक्ष्मी बाला दासी | प्रत्येक मामले में<br>निष्क्रमण (खाली<br>करने) की वास्त-<br>विक तारीख से<br>लगभग 6 महीने<br>की अवधि के लिए<br>सभी बल संपत्ति<br>और/अथवा सभी<br>पशुओं सहित सभी |

(1)

| 1 | 2                        | 3                 |
|---|--------------------------|-------------------|
|   | 8 हृदिपद हलदर            | व्यक्तियों का ऊपर |
|   | 9 श्री बिमल              | बताये अनुसार      |
|   | 10 श्री लाल बहादुर ठाकुर | निष्क्रमण।        |
|   | 11 श्री किम्टोदाम        |                   |
|   | 12 श्री राजू गोस्वाला    |                   |
|   | 13 श्री डी० सिंह         |                   |
|   | 14 श्री सीता राम शर्मा   |                   |
|   | 15 श्री छवि गोस्वाला     |                   |
|   | 16 रानी बाला दासी        |                   |
|   | 17 श्री मुगरी मोहन राय   |                   |
|   | 18 नारायण दास            |                   |
|   | 19 श्रीमती माया सरकार    |                   |

[फाइल सं० 81/एम टी पी/सी०/एलए/105]  
हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड  
पदेन मयंकन सचिव, भारत सरकार रेल मंत्रालय

### MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August 1982

**S.O. 596(E).**—Notification under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway it is necessary to direct temporary accommodation as described in the Schedule below which are situated within 20 metres on either side of the existing alignment of the Metro Railway; and whereas the Central Government has directed that the persons, residing in the premises mentioned in the Schedule below along with their family and dependents as residing in these premises together with any moveable property or animal that may be in their custody, control or possession, shall evacuate the said building

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to pay on amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation

Such evacuation shall be done by every affected persons within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

(a) for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or

(b) for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation

#### SCHEDULE

| Building/Premises No.           | Name of the affected persons   | Directions   |
|---------------------------------|--|--|
| 1                               | 2  | 3  |
| 24 99, Belgachia Road, Calcutta | 1. Pradeep Sadhukhan<br>2. Ram Beara<br>3. Ramfi Goala<br>4. Asit Kumar Saha (Tailor Shop)<br>5. Anita Saha Roy (Sweep making Room)<br>6. Vacant Room<br>7. Laxmibala Dasi<br>8. Haripada Halder<br>9. Sri Bimal<br>10. Sri Lal Bahadur Thakur<br>11. Sri Kisto Das<br>12. Shri Raju Goala<br>13. Sri D. Singh<br>14. Sri Sitaram Sharma<br>15. Sri Chabi Goala<br>16. Rani Bala Dasi<br>17. Sri Murari Mohan Roy<br>18. Narayani Dasi<br>19. Smt. Maya Sarkar | Evacuation all persons together with any movable property and/or any animal as describe above for a period of six months approximately from the actual date of evacuation in each individual case. |

[Case No. 81/MTP/C/LA/105]

HIMMAT SINGH, Secy., Railway Board.

Ex-officio Joint Secy.

to the Governments of India, Ministry of Railways